

अध्याय-14 दहाड़ नहीं पुकार

सूत्रधार- नाटक का संचालन करने वाला। सरिस्का - अलवर में स्थित वन्य-जीवों का संरक्षण स्थल। दूरबीन- दूर तक देखने वाला यंत्र । कर्मचारी- काम करने वाला। विभाग- हिस्सा। नेपथ्य-रंगमंच के पीछे की जगह। चिकित्सक-इलाज करने वाला । शिकारी-शिकार करने वाला । प्रस्थान-जाना। संरक्षण- रक्षा या बचाव करना।

कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा करें-

बाघ की दहाड़ उसके आने का संदेश ।

बाघ है राष्ट्रीय पशु, यह तो जाने सारा देश।

संतरी उसका रंग, उस पर लकीरें मोटी काली ।

जंगल के अंदर छिपे,जहाँ हो लंबी झाड़ियाँ।

लंबा है भारी भरकम ,जब दौड़े रुक जाए धड़कन ।

तेज़ भयानक हर दिल दहला दे ,ताकत इतनी हाथी को गिरा दे।

एक अकेला करे शिकार,नहीं उसका जाए खाली वार।

बैठा हो,तो लगे पूरा सरदार जहाँ जाए,हो उसका जयकार।

दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो

1.दहाड़ नहीं पुकार शब्द का क्या अर्थ है?

उत्तर-दहाड़ नहीं पुकार शब्द का अर्थ है-मदद के लिए किसी को पुकारना ।

2.तारा मैडम सभी बच्चों को घुमाने के लिए कहाँ ले जा रही थी?

उत्तर- तारा मैडम सभी बच्चों को घुमाने के लिए सरिस्का वन ले जा रही थी।

3. तारा मैडम सभी बच्चों को क्या हिदायत देती है ?

उत्तर -तारा मैडम सभी बच्चों को हिदायत दी की कोई भी बिना बताए कहीं नहीं जाएगा, यहाँ बाघ तथा अन्य जंगली जानवर रहते हैं।

4.बच्चे हैरान व दुखी क्यों हो गए?

उत्तर -सरिस्का बाग में बच्चों ने देखा की बाघ ज़ख्मी अवस्था में मदद के लिए पुकार कर रहा है इसी बात से हैरान व दुखी हो गए।

5. शिकारी बाघ का शिकार क्यों करते हैं?

उत्तर- शिकारी बाघ को पकड़कर सर्कस ले जाने के लिए तथा उसकी खाल दाँत आदि से लाखों रुपए कमाने के लिए बाघ का शिकार करते हैं।

6. बच्चों ने तारा मैडम को क्या बताया ?

उत्तर- बच्चों ने तारा मैडम को बताया कि हमने में भी बाघ की दहाड़ सुनी थी तो हमने सोचा कि वे आपस में लड़ रहे हैं।

7. पिकनिक से वापस आने के बाद बच्चों ने कौन सा अभियान शुरू किया चलाया ?

उत्तर- पिकनिक से वापस आने के बाद सभी बच्चों ने बाघों को सुरक्षा देने के लिए "बाघ बचाओ" अभियान शुरू किया।

दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए-

थोड़ा-ज्यादा	भारी-हल्का	मोटी -पतली	तेज -धीरे
काला-सफेद	सोना-जागना	लंबा-चौड़ा	रात- दिन

दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों के बनाइएँ-

जंगल- वन	बाग -उद्यान	रास्ता-मार्ग
इंतजार -प्रतीक्षा	जानवर-पशु	सम्राट-राजा

दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो -

1. जिसे देखकर डर डर लगे- डरावना
2. रोगी की चिकित्सा करने वाला -चिकित्सक
3. वन में विचरण करने वाला-वनचर
4. माँस खाने वाला- माँसाहारी
5. फल-सब्जी खाने वाला- शाकाहारी

पर्यायवाची शब्द लिखो -

पर्वत- पहाड़ , गिरी , नग, अचल
पक्षी - खग, नभचर , विहंग , पंखी ,
बाग- बगिया , फुलवारी , उद्यान , उपवन,

घमंड -अहंकार ,अभिमान, अहंकार, गर्व